



PERIODIC ASSIGNMENT – III [2022-23]

Grade – IV

Sub- HINDI

Syllabus – CH-8, 9, 10 (From Textbook)

(खंड क)

अपठित गद्यांश (1)

दिए गए गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए -

एक गाँव में एक बूढ़ा किसान रहता था। उसका नाम जगन्नाथ था। उसके चार पुत्र थे। चारों बहुत ही आलसी थे और कुछ काम नहीं करते थे। चारों पुत्र आपस में लड़ते रहते थे। किसान को उन चारों की बड़ी चिंता रहती थी। एक दिन किसान बीमार हो गया। उसने चारों पुत्रों को बुलाया और कहा, "हमारे खेत में बहुत बड़ा खजाना गड़ा हुआ है। मेरी मौत के बाद तुम लोग ढूँढ कर उसे निकाल लेना।"

प्रश्न 1 किसान के चारों पुत्र कैसे थे ?

उत्तर किसान के चारों पुत्र बहुत ही आलसी थे और कुछ काम नहीं करते थे।

प्रश्न 2 गाँव में कौन रहता था ?

उत्तर गाँव में एक बूढ़ा किसान रहता था।

प्रश्न 3 उसके चारों पुत्र आपस में क्या करते रहते थे ?

उत्तर उसके चारों पुत्र आपस में लड़ते रहते थे।

प्रश्न 4 किसान को किसकी बड़ी चिंता रहती थी ?

उत्तर किसान को उन चारों की बड़ी चिंता रहती थी।

प्रश्न 5 उसने किसको बुलाया और क्या कहा ?

उत्तर उसने चारों पुत्रों को बुलाया और कहा, "हमारे खेत में बहुत बड़ा खजाना गड़ा हुआ है। मेरी मौत के बाद तुम लोग ढूँढ कर उसे निकाल लेना।"

अपठित गद्यांश (2)

जीवन में परिश्रम का बहुत महत्व है। किसान के परिश्रम से ही दुनिया को अन्न मिलता है। माली के परिश्रम से ही बगीचे और उपवन सुंदर बनते हैं। लोग परिश्रम करके ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इस धरती पर सभी अपनी शक्ति के अनुसार कार्य करते हैं। वह शिक्षक हो या खिलाड़ी, मजदूर, कुली सभी अपनी शक्ति के अनुसार धरती को सुख-समृद्धि से भरने का प्रयत्न करते हैं। यह सुंदर दुनिया मेहनत से बनी है। यह सच है कि सफलता के फल परिश्रम की डाल पर ही उगते हैं।

प्रश्न 1 इस धरती सब किसके अनुसार कार्य करते हैं ?

उत्तर इस धरती पर सभी अपनी शक्ति के अनुसार कार्य करते हैं।

प्रश्न 2 जीवन में किसका का बहुत महत्व है ?

उत्तर जीवन में परिश्रम का बहुत महत्व है ।

प्रश्न 3 किसान के परिश्रम से दुनिया को क्या मिलता है ?

उत्तर किसान के परिश्रम से ही दुनिया को अन्न मिलता है ।

प्रश्न 4 इस गद्यांश का शीर्षक बताइए ।

उत्तर इस गद्यांश का शीर्षक परिश्रम का महत्व है ।

प्रश्न 5 विलोम शब्द लिखिए -

(क) मेहनत x आलस

(ख) धरती x आकाश

(खंड ख)

व्याकरण विभाग

निम्नलिखित वाक्यों में क्रियाविशेषण के प्रकार बताओ -

(क) सुनीता एक महीने की छुट्टी पर है

कालवाचकक्रिया विशेषण

(ख) यश ने एक किलो आलू खरीदे ।

परिमाणवाचकक्रिया विशेषण

(ग) रीना बाहर खेल रही है ।

स्थानवाचकक्रिया विशेषण

(घ) फूलदान जोर से गिरा ।

रीतिवाचकक्रिया विशेषण

निम्नलिखित वाक्यों के प्रकार बताओ -

(क) क्या तुम जा रहे हो ?

प्रश्नवाचक वाक्य

(ख) भारत एक देश है ।

विधानवाचक वाक्य

(ग) मैंने दूध नहीं पिया ।

निषेधवाचक वाक्य

(घ) वाह ! कितना अच्छा दृश्य है ।

विस्मयादिवाचक वाक्य

(खंड ग)

साहित्य विभाग

कौन कविता की चार पंक्तियाँ लिखो -

1 किसने बटन हमारे कुतरे ?

2 किसने स्याही को फैलाया ?

3 कौन चट कर गया दुबक कर ?

4 घर-भर में अनाज बिखराया ?

अथवा

पढक्कू की सूझ कविता की चार पंक्तियाँ लिखो -

- 1 एक पढक्कू बड़े तेज थे ,तर्क शास्त्र पढ़ते थे ,
- 2 जहां न कोई बात ,वहाँ भी नई बात गढ़ते थे ।
- 3 एक रोज वे पड़े फिक्र में समझ नहीं कुछ पाए
- 4 ,बैल घूमता है कोल्हू में कैसे बिना चलाए ?

निम्नलिखित प्रश्नों के अति लघु उत्तर लिखो -

प्रश्न 1 दोना खाली क्यों रह गया ?

उत्तर दोना खाली रह गया क्योंकि मिठाई चूहा ले गया ।

प्रश्न 2 नीना क्या बन जाती है ?

उत्तर नीना बिल्ली बन जाती है

प्रश्न 3 बिंदा क्या खोद रहा था ?

उत्तर बिंदा आलू खोद रहा था ।

प्रश्न 4 सरला क्या काम करना पसंद करती है ?

उत्तर सरला दही से मट्ठा चलाने का काम पसंद करती है

प्रश्न 5 गांधीजी कहाँ जा रहे थे ?

उत्तर गांधीजी दांडी यात्रा पर जा रहे थे ।

प्रश्न 6 कौन कविता के लेखक कौन हैं ?

उत्तर कौन कविता के लेखक सोहन लाल द्विवेदी हैं ।

निम्नलिखित प्रश्नों के दीर्घ उत्तर लिखो -

प्रश्न 1 घर में किस - किस तरह का नुकसान हुआ है ?

उत्तर घर में स्याही बिखेरी गई ,जिल्द काटी गई ,कागज फैलाए गए ,अनाज बिखेरा गया और घरके अंदर काफी नुकसान किया गया ।

प्रश्न 2 धनी कौन था ?आश्रम में उसका क्या कार्य था ?

उत्तर धनी एक नौ साल का बच्चा था जो अपने माता पिता के साथ साबरमती आश्रम में रहता था।

प्रश्न 3 बच्चे बिल्ली को कहाँ -कहाँ ढूँढते हैं और बिल्ली किसे मिलती है ?

उत्तर बच्चे बिल्ली को ऊपर नीचे ,अंदर बाहर और रंगमंच पर ढूँढते हैं

(खंड घ)
लेखन विभाग

दीपावली

1. दीपावली का त्योहार कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है ।
2. कहते हैं भगवान राम चौदह वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे ,इस खुशी में अयोध्या वासियों ने दीपक जलाकर उनका स्वागत किया था ।
3. यह त्योहार पाँच दिनों तक मनाया जाता है ।
4. इस दिन लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा की जाती है ।
5. दीपावली में घर को असंख्य दीपों और रंग बिरंगी रोशनियों से सजाते हैं ।
6. दीपावली का त्योहार सभी के जीवन में खुशी प्रदान करता है ।
7. यह त्योहार छोटे - बड़े , अमीर - गरीब का भेदभाव भूलकर सभी आपस में मिलजुलकर मनाते हैं।
8. दशहरे के बाद से ही घरों में दीपावली की तैयारियां शुरू हो जाती हैं

पत्र लेखन अनौपचारिक पत्र

विषयांग (topic) - मित्र को अपने जन्मदिन पर आमंत्रित करने हेतु पत्र

72 कंकड़बाग
वीरप्रताप सोसायटी
पटना ।
22 अप्रैल ,2022

प्रिय राघव ,

तुम्हें याद होगा की 9 मई को मेरा जन्मदिन है |हर वर्ष की तरह इस बार भी मेरे माता पिता जन्मदिन के अवसर पर पार्टी का आयोजन कर रहे हैं| मेरी हार्दिक इच्छा है कि तुम इस पार्टी में शामिल होकर प्रसन्नता प्रदान करो ।

इस बार केक काटने के साथ -साथ संध्या संगीत का भी आयोजन रखा गया है ,पार्टी शाम को छः बजे रखी गई है ,तो तुम्हें अपने परिवार के साथ आना है |में तुम्हारा इंतजार करूंगा ।

अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना और छोटी बहन को प्यार देना ।

तुम्हारा मित्र
यश मेहता ।